

भारत में बढ़ते मोटापे की समस्या

प्रलिस के लिये:

[वशिव सवास्थय संगठन](#), [बॉडी मास इंडेक्स](#), मोटापा, [मशिन पोषण 2.0](#), [मधयाहन भोजन योजना](#), [पोषण वाटकारिँ](#),

मेन्स के लिये:

कुपोषण, भारत में कुपोषण से नपिटने हेतु कदम, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

[स्रोत:द हद्वि](#)

चर्चा में क्योँ?

2022 में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने दुनिया भर में पछिले कुछ दशकों में बच्चों, कशिरों एवं वयस्कों में मोटापे की दर में चतिजनक वृद्धिपर प्रकाश डाला है।

- यह व्यापक वशिलेषण [वशिव सवास्थय संगठन](#) के सहयोग से **NCD** के जोखमि कारकों पर सहयोग (NCD-RisC) द्वारा आयोजित किया गया था।
- अध्ययन में यह समझने हेतु [बॉडी मास इंडेक्स](#) पर गौर किया गया किवर्ष 1990 से 2022 तक दुनिया भर में मोटापे और कम वजन में परदृश्य कैसे बदल गया है।

नोट:

- NCD-RisC दुनिया भर के स्वास्थय वैज्ञानिकों का एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी देशों के लिये [गैर-संचारी रोगों](#) के प्रमुख जोखमि कारकों पर प्रमुख और समय पर डेटा प्रदान करता है।

अध्ययन की मुख्य वशिलेषताएँ क्या हैं?

- भारत के आँकड़े:**
 - मोटापा:**
 - लैसेट ने जारी किये किवर्ष 2022 में भारत में 5-19 वर्ष की आयु के **12.5 मिलियन बच्चों** (7.3 मिलियन लड़के और 5.2 मिलियन लड़कियाँ) को अत्यधिक अधिक वजन वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो वर्ष 1990 में 0.4 मिलियन की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
 - लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में **भारत वर्ष 2022 में दुनिया में 174वें स्थान** पर था।
 - वयस्क **महिलाओं में** मोटापे की दर वर्ष 1990 में 1.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 9.8% हो गई और इसी अवधि में पुरुषों में 0.5% से 5.4% हो गई।
 - कुपोषण:**
 - भारत में भी **अल्पपोषण की व्यापकता अधिक** बनी हुई है, परिणामस्वरूप, भारत [कुपोषण](#) के उच्च "दोहरे बोझ" वाले देशों में से एक बन गया है।
 - 13.7% महिलाएँ एवं 12.5% पुरुष कम वजन वाले थे।
 - दुबलापन**, बच्चों में कम वजन की एक माप जो **लड़कियों में 20.3% की व्यापकता के साथ दुनिया में सबसे अधिक** है।
 - यह **21.7% की व्यापकता के साथ लड़कों में दूसरे स्थान** पर था।
- वैश्विक:**
 - वशिव भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, कशिरों और वयस्कों की कुल संख्या **एक अरब से अधिक** हो गई है।

- कुल मलाकर वर्ष 2022 में 159 मिलियन बच्चे और कशोर तथा 879 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे।
- मोटापे में वृद्धि के कारण अधिकांश देशों में **कम वज़न और मोटापे का संयुक्त भार बढ़** गया है, जबकि दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में **कम वज़न और पतलापन** प्रचलति है।
- वर्ष 2022 में, कैरेबियन पोलनिशिया और माइक्रोनेशिया के द्वीप देशों तथा मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में **कम वज़न व मोटापे का संयुक्त प्रसार सबसे अधिक** था।
- वर्ष 2022 में **पतलेपन और मोटापे की संयुक्त व्यापकता** वाले देश **पोलनिशिया, माइक्रोनेशिया तथा कैरेबियन** दोनों लगिं हेतु एवं चली व कतर लड़कों के लयि थे।
 - भारत और पाकस्तान जैसे दक्षिण एशिया के कुछ देशों में भी संयुक्त प्रसार अधिक था, जहाँ गरिवट के बावजूद पतलापन प्रचलति रहा।
- **मोटापे में योगदान देने वाले कारक:**
 - **महिलाओं में वज़न बढ़ने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनके पास अक्सर व्यायाम** के लयि समय नहीं होता है और वे अपने परिवार के पोषण को अपने पोषण से अधिक प्राथमकता देती हैं।
 - घरेलू ज़मिंदारियों के कारण भी उन्हें **कम नींद** आती है।
 - इसके अतरिकित **अस्वास्थ्यकर जंक फूड पोषटिक विकल्पों की तुलना में सस्ता और अधिक आसानी से उपलब्ध है**, जसिसे मोटापे की दर बढ़ जाती है, यहाँ तक कि तमलिनाडु, पंजाब तथा गोवा जैसे स्थानों में कम आय वाले लोगों में भी।

अधिक वज़न, पतलापन और मोटापा क्या हैं?

■ **बॉडी मास इंडेक्स:**

- BMI वज़न-से-ऊँचाई (**weight-to-height**) का एक माप है जसिका प्रयोग आमतौर पर वयस्कों में कम वज़न, अधिक वज़न और मोटापे को वर्गीकृत करने के लयि कयिा जाता है।
- इसकी गणना कलोग्राम में वज़न को मीटर (कलो/वर्ग मीटर या kg/m^2) में ऊँचाई के वर्ग से वभिाजति करके की जाती है।
 - उदाहरण के लयि, 58 कलोग्राम वज़न वाले और 1.70 मीटर लंबे वयस्क का बीएमआई 20.1 होगा (बीएमआई = $58 \text{ कलोग्राम} / (1.70 \text{ मीटर} \times 1.70 \text{ मीटर})$)।

■ **मोटापा और अधिक वज़न:**

- अधिक वज़न और मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परभिाषति कयिा गया है जो **स्वास्थ्य जोखमि उत्पन्न** करता है।
- अधिक वज़न अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति है और **मोटापा एक क्रॉनिक बीमारी** है जो तब होती है जब शरीर अतरिकित कैलोरी को वसा के रूप में संग्रहीत करता है।
 - मोटापा हृदय रोग, मधुमेह, मस्क्यूलोस्केलेटल विकार और कुछ **कैंसर** जैसी पुरानी बीमारियों के लयि एक प्रमुख जोखमि कारक है।
 - बाल्यावस्था का मोटापा गंभीर स्वास्थ्य जटलिताओं और समय से पहले संबंधति बीमारियों के शुरु होने के बढ़ते जोखमि से जुड़ा है।
- मोटापा **कपोषण के दोहरे बोझ** का एक पक्ष है और आज दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को छोड़कर हर क्षेत्र में **अधिकांश लोग कम वज़न वाले लोगों की तुलना में मोटापे से ग्रस्त** हैं।

■ **दुबलापन और कम वज़न:**

- दुबलेपन और कम वज़न का तात्पर्य ऊँचाई के सापेक्ष **शरीर का वज़न सामान्य वज़न से कम होना** है। यह प्रायः अपर्याप्त कैलोरी सेवन या अंतरनहित स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा होता है।
- कम वज़न **अल्पपोषण के चार व्यापक उप-रूपों में से एक** है।
 - यदि किसी वयस्क का **BMI 18 kg/m^2 से कम** है तो उसे कम वज़न का माना जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और कशोरों को कम वज़न का माना जाता है यदि उनका BMI औसत से दो मानक वचिलन कम है।
 - **अल्पपोषण चार व्यापक रूपों में परलिक्षति होता है: वेस्टिंग, स्टंटिंग, कम वज़न और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी।**
- कम वज़न होने से वभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जनिमें **ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा, बाल या दांतों की समस्याएँ, नरितर बीमारियाँ, थकान, एनीमिया, अनयिमति मासकि धरम, समय-पूर्व जन्म, विकृत विकास और मृत्यु दर का जोखमि बढ़ना** शामिल है।

पोषण सुधार से संबंधति भारत की क्या पहल हैं?

- [ईट राइट मेला](#)
- [फटि इंडिया मूवमेंट](#)
- [ईट राइट स्टेशन प्रमाणन](#)
- [मशिन पोषण 2.0](#)
- [मधयाहन भोजन योजना](#)
- [पोषण वाटकिाँ](#)
- [आँगनवाड़ी](#)
- [समेकति बाल विकास सेवा योजना](#)
- [प्रधानमंत्री मातु वंदना योजना](#)

आगे की राह

- मोटापे और कम वज़न को अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि कम वज़न-मोटापे का **संक्रमण तेज़ी** से हो सकता है, जिससे उनका संयुक्त बोझ अपरविरतति या अधिक हो सकता है।
- उन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो **स्वस्थ पोषण को बढ़ाते हैं**, जैसे लक्षित नकद हस्तांतरण, स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिये सब्सिडी या वाउचर के रूप में खाद्य सहायता, मुफ्त स्वस्थ स्कूल भोजन और प्राथमिक देखभाल-आधारित पोषण संबंधी हस्तक्षेप।
- **मोटापे से ग्रस्त लोगों को वज़न घटाने में सहायता की तत्काल** आवश्यकता है।
- रोकथाम और प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मोटापे की शुरुआत की उम्र कम हो गई है, जिससे जोखिम की अवधि बढ़ जाती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिये IFPRI द्वारा उपयोग किये जाने वाले संकेतक नमिनलखिति में से कौन-सा/से है/हैं? (2016)

1. अल्पपोषण
2. चाइल्ड स्टंटगि
3. बाल मृत्यु दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत किये जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता की कमी पर मुख्य फोकस भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (2018)